



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2005 (भाद्रपद 26, 1927)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2005 (BHADRA 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]
[PART—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

इस सचिवालय में उनका पुनर्ग्रहणाधिकार रखा गया है।

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

सं० आरएस/6(i)/2005/45-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति, के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किए गए श्री ओ० पी० हर्ष, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सेवाएं 31 अगस्त, 2005 के अपराह्न से समाप्त होती हैं और उनकी सेवाओं को राजस्थान सरकार को सौंपा जाता है।

वंजुला जी० राजन, अवर सचिव

वंजुला जी० राजन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर, 2005

सं० आरएस/43(ii)/2005/46-कार्मिक—डा० एस० शिव कुमार, समिति अधिकारी को 31 अगस्त, 2005 (मध्याह्न पश्चात्) सचिवालय की सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है और जेशनल कमिशनर लिग्विस्टिक मॉडिनोरिटीज के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 1 सितम्बर, 2005 के (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायक आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक के रूप में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाओं को सुपुर्द कर दिया गया है।

सं० आरएस/6(iv)/2005/47-कार्मिक—विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों और राज्य सभा की स्थायी समितियों (सभा की समितियों) के क्रमशः 5 और 6 अगस्त, 2005 से पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित वरिष्ठ निजी नौकरों की संबंधित समितियों के पुनर्गठन की तारीख से उनके नाम के सामने दर्शायी गई समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में सहपदावसान आधार पर नियुक्ति का नवीकरण निम्नानुसार किया जा रहा है:—

क्र० सं०	नाम और प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	अध्यक्ष, जिसके वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त हैं	नियुक्ति के नवीकरण की तारीख
1.	श्री राजेश कुमार चोपड़ा (23-08-2004)	अध्यक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	05-08-2005

क्र० नाम और प्रारंभिक सं० नियुक्ति की तारीख	अध्यक्ष, जिसके वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त हैं	नियुक्ति के नवीकरण की तारीख
2. श्री प्रसेनजीत बोस (13-09-2004)	अध्यक्ष, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	05-08-2005
3. श्री प्रदीप कुमार जैन (09-08-2004)	अध्यक्ष, वाणिज्य संबंधी समिति	05-08-2005
4. श्री राजेन्द्र सिक्का (12-08-2004)	अध्यक्ष, गृह कार्य संबंधी समिति	05-08-2005
5. श्री सुरेश चन्द जैन (05-08-2004)	अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	05-08-2005
6. श्री शिव कुमार सिंह (05-08-2004)	अध्यक्ष, उद्योग संबंधी समिति	05-08-2005
7. श्री नन्द लाल (12-08-2004)	अध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	05-08-2005
8. श्री माधवन (05-08-2004)	अध्यक्ष, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	05-08-2005
9. श्री मनोज कुमार सिंह (07-08-2004)	अध्यक्ष, याचिका समिति	06-08-2005
10. श्रीमती नीना (01-03-2005)	अध्यक्ष, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	06-08-2005
11. श्री दादी रामा कृष्णा (02-09-2004)	अध्यक्ष, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	06-08-2005
12. श्री हेमन्त रावल (07-08-2004)	अध्यक्ष, आवास समिति	06-08-2005
13. श्री मोहन सिंह सेन (14-09-2004)	अध्यक्ष, आचार समिति	06-08-2005

2. उपरोक्त नियुक्तियों संबंधित समितियों के वर्तमान अध्यक्षों के विवेकाधीन हैं और उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगे।

बंजुला जी० राजन, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

सं० सी एन-5522/2005/ए एन-II

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16-4-2004 की पूर्वतम अधिसूचना संख्या पीएफ 1819(3) जो एन-5148/ए एन-1/2004 के अधिक्रमण में सरकारी स्थान (अप्रार्थित अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) तथा दिनांक 26 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र, भाग दो, खंड 3, उपखंड (दो) में प्रकाशित शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यथा-अधिसूचित दिनांक 8 नवम्बर, 1988 के का०आ० संख्या 3507 द्वारा, या इसके अंतर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और

उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन हेतु श्री यू०एस० सक्सेना, निदेशक, लोक सभा सचिवालय को 29-08-2005 से अगले आदेशों तक, सहर्ष, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राजीव शर्मा, उप सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2005

संख्या ए-19013/3/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री अग्रिम कौशल, (आई० ई० एस्: 95) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में वेतनमान 12,000-375-16,500/रु० में उप सचिव के पद पर दिनांक 22 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, नियुक्त करते हैं।

वाई० पी० सहाय, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2005

सं० ए- 38012/1/2005-प्रशा० I (क्रि०)---विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग में अपर सचिव श्री जैडू एस् नेगी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, 31 अगस्त 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वी० रविन्द्रन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2005

सं० I-45014/4/2005-आईपीएस-I---तमिलनाडु स्वर्ग के 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री एस् नल्लासिवम् को अब से सभी प्रयोजनों के लिए आर० एस् नल्लासिवम् के नाम से जाना और पहचाना जाएगा।

ओ० एस् अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2005

संख्या-ए-32013/1/2005-प्रशासन-I---राष्ट्रपति, श्री टी० वेंकटेश, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश 88) को दिनांक 11 अगस्त, 2005 अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

संख्या-ए-32013/8/2005-प्रशासन-1(जी)—राष्ट्रपति, श्री अजय प्रकाश साहनी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आन्ध्र प्रदेश: 84) की दिनांक 17 अगस्त, 2005 पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

संख्या-ए-32013/9/2005-प्रशासन-1(जी)—राष्ट्रपति, श्री आर० के० सिंह, आई०आर०एस०ई० (सेवानिवृत्त), पूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की, दिनांक 22 अगस्त, 2005 अपराह्न से कार्यावधि आधार पर तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, संविदा पर सदस्य, लोक उद्यम चयन बोर्ड के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2005

सं० ए-12011/8/2005-प्रशा० II—राष्ट्रपति, व्यय विभाग के दिनांक 05.08.2005 के कां० सं०-12026/4/2005-सीएस के अनुसरण में सीएस के वित्त संवर्ग के निम्नांकित सहायकों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उनके नाम के आगे लिखी तिथियों के पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए या नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री इन्द्र मोहन सिंह	08.08.2005
2.	श्री एस० के० नय्यर	08.08.2005
3.	श्रीमती सुनीता शर्मा	08.08.2005
4.	श्रीमती मंजीत कौर	08.08.2005
5.	श्रीमती किरण गेरा	08.08.2005
6.	श्री परेश मालाकार	08.08.2005
7.	श्रीमती परशोत्तमा संकला	09.08.2005
8.	श्री प्रीत पाल सिंह ओबराय	10.08.2005
9.	श्रीमती संतोना रहलान	16.08.2005

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपर्युक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी—

क. तदर्थ प्रोन्नति कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण उन्हें अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में

उनका नाम शामिल किए जाने का या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ख. तदर्थ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर महात्तक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी० रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2005

सं०-एफ० 12011/13/03 प्रशा० Iए—वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में लेखा अधिकारी श्री जे० के० आर्य, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अगस्त, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा उनका नाम आर्थिक कार्य विभाग की नामावली से इसी तारीख से हटा दिया जाएगा।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

सं०-ए० 11011/7/2003 प्रशा० Iए—इस विभाग की दिनांक 02.07.2004 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में श्री एस०सी० पांडे (आईए तथा एसएस : 83) की 14,300-450-22,400/- रुपए के वेतनमान में आर्थिक कार्य विभाग में विशेष कार्याधिकारी (एफआरबीएम) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि की दिनांक 02.07.2005 से 31.03.2006 तक के लिए और आगे बढ़ाया जाता है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(रबड़ नियंत्रण)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2005

सं० 6/14/2004-बागान(ग)—रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री साजेन पीटर आई०ए०एस० (केएल:82) को दिनांक 5 अगस्त, 2005 (अपराह्न) से रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

ए० सेनगुप्त, अपर सचिव

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2005

सं. ए-2018/1/2004-आ.सं. (प्रशा. 1)—राष्ट्रपति भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी श्री राधेश्याम को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में दिनांक 23.8.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक या जो भी पहले हो उप-आर्थिक सलाहकार (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) पद पर वेतनमान रूपये 12000-375-16500/- में एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

समरेन्द्र साहु, अपर आर्थिक सलाहकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 2005

सं. ए-12011/10/2001-स्थापना—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में धारित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा "ग" वर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिकों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए रूप 6500-10500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार में निजी सचिव (क और ख विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	नाम	से	तक
1.	श्री धर्मपाल	1.7.2005	30.9.2005
2.	श्री सुरेश चन्द्र	-तदैव-	-तदैव-
3.	श्री एस. के. ठाकुर	-तदैव-	-तदैव-
4.	श्री जे. के. देडन	-तदैव-	31.7.2005

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.7.2005 के कार्रवाई सं. 5/1/2005-सीएस 2 के अनुमोदित हैं।

3. उपर्युक्त नियुक्तियों पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और उपर्युक्त व्यक्तियों को नियामत नियुक्ति आदि के लिए किसी दावे के हकदार नहीं होंगे।

तेजन्दर सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

सं. ए-19011/2/2004-मा.सं.-II—श्री एफ. एन. पी. एन. सिन्हा आई. ए. एस. (बैच: 68) सचिव, उर्वरक विभाग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.08.2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

राजेश अग्रवाल, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर, 2005

सं. ए-19011/10/2005-मा.सं.-II—राष्ट्रपति, श्री मधुकर गुप्ता, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तरांचल: 71) को उर्वरक विभाग में दिनांक 01.09.2005 के पूर्वाह्न से 26000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश अग्रवाल, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 2005

सं. ए-32013/1/98-प्रशा. (खण्ड II)—दिनांक 5 अगस्त, 2005 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.7.2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस I के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में श्रीमती एलिस कुजूर की प्रोन्नति के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति की तारीख, कृपया अगले आदेशों तक, 27.7.2005 (पूर्वाह्न) से, के स्थान पर 28.7.2005 (पूर्वाह्न) पढ़ी जाए।

प्रकाश चंद, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

एफ संख्या ए-11011/03/04-प्रशासन—राष्ट्रपति, भारत सरकार के एक उपक्रम, हिन्दुस्तान केबल्स लि., कोलकाता के कार्यालय में उप प्रबंधक (सचिवालय) श्री संदीप विश्वास को उधार देने और उधार लेने वाले संगठनों द्वारा आपस में तय की गई शर्तों और निबंधनों पर दिनांक 16 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वायदा बाजार आयोग, मुंबई में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (विधि) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त, 2005

फा. संख्या ए-32019/02/04-प्रशासन. I—राष्ट्रपति श्री सुब्रत बनर्जी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में, 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में, 16-08-2005 (पूर्वाह्न) से, आगे और आदेश होने तक संशोधित लचीली मानार्थ स्कीम (एफसीएस) के अंतर्गत पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप यथास्थाने वैज्ञानिक 'जी' के रूप में नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 2005

सं० जेड 20018/1/2000-सी पी ए . .)—राष्ट्रपति, श्री सुधीर मित्तल, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (अतिरिक्त कार्यभार) के सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से प्राधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री सुधीर मित्तल, प्राधिकरण में केवल दिन-प्रतिदिन के कार्य करेंगे जैसे अपीलें प्राप्त करना, यदि कोई हों, और उन पर प्रारम्भिक प्रोसेसिंग आदि। अध्यक्ष द्वारा कार्यभार संभाल लेने पर श्री मित्तल राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे।

एच० वी० मैथ्यू, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

संख्या 3-1/2005-मात्स्यिकी (1 शासन)—राष्ट्रपति, वर्तमान में वरिष्ठ अनुदेशक (क्राफ्ट एवं गियर) पद पर कार्यरत डा पी० पक्षीराजन को दिनांक 4 जुलाई, 2005 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में मुख्य अनुदेशक (क्राफ्ट एवं गियर) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दिनांक 4-7-2005 से दो वर्षों की अवधि तक परीवीक्षाधीन होंगे।

रमन कुमार मेहता, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल, 2005

सं० ए-12022/2/2005-स्थापना-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, श्री डी० पी० राय, जो संप्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को उनके लिए किए गए व्यक्तिगत उपाय के रूप में उनके संप्रति निदेशक के पद को संयुक्त सचिव स्तर पर उन्नत करके 1-4-2005 के पूर्वाह्न से 31-3-2007 को उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस मंत्रालय में 18,400 - 22,400/-रु० के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच० सी० बवेजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2005

सं० ए-32013/1/98-स्थापना-I (खण्ड-II)—राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से पूर्णतः तदर्थ आधार पर अगले आदेशों तक अवर सचिव नियुक्त किया जाता है।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	सुश्री एस० रुक्मणि	12-07-2005 (पूर्वाह्न)
2	देवेन्द्र पाल सिंह	14-07-2005 (पूर्वाह्न)
3	ए० डी० जेम्स	14-07-2005 (पूर्वाह्न)

एच० सी० बवेजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 08 अगस्त, 2005

सं० ए-32013/1/98-स्थापना-I (खण्ड-II)—राष्ट्रपति, श्री एस० आर० मेहर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अनुभाग अधिकारी को, 27 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच० सी० बवेजा, अवर सचिव

सं० ए-32013/1/98-स्थापना-I (खण्ड-II)—राष्ट्रपति, श्री रंजन कुमार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अनुभाग अधिकारी को, 29 जुलाई, के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच० सी० बवेजा, अवर सचिव,

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 2005

सं० ए-12022/3/2005-स्थापना-I—राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती नीलम साहनी, भा०प्र०से० (आंध्र प्रदेश: 84) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में दिनांक 19-08-2005 पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी०आर० धमीजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त, 2005

सं० ए-32013/1/98-स्थापना-I (खण्ड-II): राष्ट्रपति द्वारा श्री के० तौथांग को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से स्थानांतरण के उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय में 10,000-325-15200 रुपये के वेतनमान में 19.8.2005 के पूर्वाह्न से अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी०आर० धमीजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 2005

सं० ए-12022/5/2005-स्थापना-I—राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती स्मिता चुग, भा०प्र०से० (जेएच: 80) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में 18,400-500-22,400/रु० के वेतनमान में 24-08-2005 के पूर्वाह्न से

5 वर्ष तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी० आर० धमीजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2005

सं० ए-32013/2/2000-स्थापना-I—राष्ट्रपति, श्रीमती अनिता बघेल, भारतीय सांख्यिकी सेवा की जे०टी०एस० अधिकारी का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) से स्थानांतरण होने पर उन्हें दिनांक 23.8.2005 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास मंत्रालय में 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी० आर० धमीजा, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 2005

सं० 1-11/2004 एम-II—राष्ट्रपति, डा० सुधाकर शर्मा, कीपर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली की, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31-01-1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28016/5/85-स्थापना (सी) में निर्धारित शर्तों और निबंधनों पर संस्कृति मंत्रालय के एक केन्द्रीय स्वायत्त संगठन, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में सचिव, ललितकला अकादमी, नई दिल्ली के पद पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 22 अगस्त, 2005 (अपराह्न) से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में कीपर के पद से डा० सुधाकर शर्मा का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

एस० के० कपूर, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2005

सं० 41-8/2001-प्रशा-I/IV—श्री नफे सिंह, इंजीनियर, बेतार अनुश्रवण संघटन, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिवर्षिता की आयु होने पर 30 जून, 2005 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी० के० रघुराम, अवर सचिव, (प्रशा-IV)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त, 2005

विषय—23 और 24 सितम्बर, 2003 की हुई विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2001-2002 के परिणाम के आधार पर आईपीओ/आईआरएम/जनरल लाइन के कर्मचारियों की डाक सेवा समूह 'ख' में पदोन्नति।

सं० 9-83/2002 एसपीजी. महानिदेशक डाक उपर्युक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर श्री बी० गोपाल राव की डाक सेवा समूह 'ख' ग्रेड (वेतनमान 7500-250-12000/- रुपए) में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और आगामी आदेशों तक पदोन्नति का अनुमोदन करते हैं। उनका नाम इस निदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-10-2004 में क्रम संख्या 41 पर स्थित श्री विभाष चन्द्र सिंह के नीचे और कथित अधिसूचना में क्रम संख्या 42 पर स्थित श्री भवानी प्रसाद के ऊपर रखा गया है। पदोन्नति पर उन्हें आंध्र प्रदेश सर्किल आर्बिट्रट किया गया है।

2. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि कोई हो

इस कार्यालय के का.ज्ञा.सं. 25-19/88-एसपीजी दिनांक 04-05-88 के साथ परिचालित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 22011/2/86-स्था. (ए) दिनांक 12-01-88 जिसमें (तदुपरांत) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 22022/4/91-स्था. (ए) दिनांक 14-9-92 द्वारा संशोधन किया गया था व जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 25-19/88-एस पी जी दिनांक 13-10-92 के साथ परिचालित किया गया था, में उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारियों के खिलाफ लंबित है, तो उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई दण्ड प्रवर्तित है, तो उन्हें दण्ड की मियाद के समाप्त होने से पूर्व पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए।

3. पात्रता के अध्यधीन प्रोन्नति

यदि बाद में यह पाया जाता है कि कर्मचारी इस परीक्षा को देने के लिए नियमों अथवा इस विषयक अनुदेशों के अधीन अथवा किसी अन्य कारण से पात्र नहीं था, तो उसकी प्रोन्नति की रद्द कर दिया जाएगा। उस कर्मचारी के संबंध में, यदि कोई हो, जिसका इस परीक्षा में प्रवेश अनंतिम था, यह प्रोन्नति उनके द्वारा परीक्षा देने के लिए पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

4. परिवीक्षा अवधि

डाक सेवा समूह 'ख' में पदोन्नत सभी कर्मचारी दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और इस पद पर बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता पर निर्णय दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान कोई कर्मचारी 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अवकाश पर जाता है, तो अवकाश की अवधि के आधार पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।

5. प्रशिक्षण

फिलहाल, कर्मचारी को डाक सेवा समूह 'ख' में बिना किसी प्रशिक्षण के सीधी पदोन्नति दी जाएगी। तथापि, जब और जैसे निदेशक, पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा।

6. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

अधिकारी यदि एफ आर-22 (i) (क) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें पदोन्नति की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

7. कार्य-भार ग्रहण करने से संबंधित रिपोर्ट कृपया इस कार्यालय को यथासमय भेज दी जाए।

बी० पी० पंत, सहायक महानिदेशक (एस जी पी)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर, 2005

सं-ए-12022/4/2002-प्रशासन—राष्ट्रपति नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री रघु मेनन, आई ए एस (एन०एल० 1974) को, दिनांक 1 सितम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से, संयुक्त सचिव के पद को अपग्रेड करते हुए व्यक्तिगत आधार पर इसी मंत्रालय में तीन महीनों के लिए 22400-525-24500 रुपये के वेतनमान में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० केशवा अय्यर, अपर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

सं ई आर बी-1/2005/10/20—श्री आर० के० सिंह, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय में भारत के पदेन प्रमुख सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.7.2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम० के० अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2005

सं 2002/ई(जी आर) 1/8/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल भंडार सेवा के निम्नलिखित प्रवेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्र० सं० नाम (सर्वश्री/श्री/कु०)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1. सुनील कुमार तिवारी	02.09.2002
2. मनुमनीष गुप्ता	02.09.2002
3. प्रशांत अग्रवाल	02.09.2002
4. राजेश कुमार सिंह	02.09.2002
5. उदय कुमार केशरी	02.09.2002
6. पुरुषोत्तम सेठी	05.09.2002
7. दरोगा लाल यादव	09.09.2002
8. श्रीदीप सिन्हा	02.09.2002
9. अजय कुमार	01.09.2003

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी०आर०), (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 01 सितम्बर, 2005

सं ई आर बी-1/2004/23/29—रेल मंत्रालय की 4.9.2004 की समसंख्यक अधिसूचना देखें जिसके अनुसार 27-2-2002 को गोधरा स्टेशन पर गाड़ी सं० 9166 साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की घटना की जांच करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री यू० सी० बैनर्जी की अध्यक्षता में 5-9-2004 से 3 माह की अवधि के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी और 30-11-2004, 04-03-2005 और 1-6-2005 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के अनुसार इसका कार्यकाल क्रमशः 04-03-2005, 04-06-2005 तथा 4-09-2005 तक बढ़ाया गया था।

2. भारत सरकार ने उक्त उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल को 04-09-2005 से आगे अगले 3 माह की अवधि अर्थात् 04-12-2005 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया है।

इसे राष्ट्रपति जी के आदेश से और उनकी ओर से जारी किया जाता है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एम० नारायणन, संयुक्त सचिव (राज०), रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 06 सितम्बर, 2005

सं ई ओ-III-2005/आर एन/14—इनर्कॉन में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री सुधीर माथुर, भा० रे० ले० से० ने 31-8-2005 (अपराह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड, एवं पदेन अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर, 2005

सं ई ओ-III-2005/आर एन/19—राइट्स में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री एच० एल० चौधरी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियर सेवा ने 23-08-2005 (अपराह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 7-9-2005

सं ई ओ-III-2005/आर एन/20—इस्कॉन में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री राज बहादुर, सहायक इंजी. (ग्रुप 'बी') ने 18-8-2005 (अपराहन) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2005

सं ए-12025/5/2003-स्था—राष्ट्रपति, श्री डी० जे बासू, सहायक निदेशक (यांत्रिक) की उप निदेशक (यांत्रिक) (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिवीय) तदर्थ आधार पर नियुक्ति 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में दिनांक 18-7-2005 (पूर्वाहन) से छः महीने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं। अन्य शर्तें उसी प्रकार रहेंगी जैसी कि इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं 6/2004 दिनांक 19.1.2004 (ए-12025/5/2003/स्था) में दर्शाई गई है।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2005

सं ए-12025/59/2005-स्था II (बी)—राष्ट्रपति, श्री एच० सी० गुप्ता, आई ए एस (यूपी:71) को दिनांक 01-08-2005 (अपराहन) से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी० एन० मिश्रा, अवर सचिव, भारत सरकार

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर, 2005

सं ए 32013/01/2004-ई-2—राष्ट्रपति, श्री वी० वेलायुधम, मुख्य अभियंता की पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में अपर महानिदेशक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति को दिनांक 26-07-2005 से और आगे छः महीनों के लिए या

अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये जाने वाले आदेशों के अधीन होगा।

बी० एन० मिश्रा, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(फिल्म प्रभाग)

मुंबई, दिनांक 25

अगस्त, 2005

सं ए-32014/1/2005-स्थापना-I—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्री श्याम सुन्दर, रिकार्डिस्ट, फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली को पदोन्नति के आधार पर, मुख्य रिकार्डिस्ट, वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर रु० 7450-225-11500, के वेतनमान में दिनांक 22 अगस्त, 2005 (पूर्वाहन) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

टी० टी० फर्नानडिस, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कृते मुख्य निर्माता

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 02 सितम्बर, 2005

सं के-11011/21/2005-डीडीए—केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री दिनेश राय, आईएएस (ऊ०प्र०: 74) को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक अपर सचिव के रैंक और वेतन पर नियुक्त किया जाता है।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 2005

सं एन- 14024/6/2005-एच-I—श्री जिले सिंह दिशोदिया, आई ई एस को 1-7-2005 से इस मंत्रालय के राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में उप निदेशक के पद पर तैनात किया गया है।

एल० आर० गुप्ता, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 31st August, 2005

No.RS/6(i)/2005/45-Perl.—The services of Shri O.P. Harsh, RAS, who had been appointed as Officer on Special Duty in the personal staff of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on co-terminus basis stand terminated with effect from the afternoon of 31st August, 2005 and are placed back at the disposal of the Government of Rajasthan.

VANJULA G. RAJAN, Under Secretary

No.RS/43(ii)/2005/46-Perl.—Dr. S. Sivakumar, Committee Officer has been relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. 31st August, 2005 (AN) and his services have been placed at the disposal of the Office of the National Commissioner Linguistic Minorities at their Regional Office in Chennai for his appointment as Assistant Commissioner, Linguistic Minorities w.e.f. 1st September, 2005 (FN) for a period of three years.

2. His lien has been retained in this Secretariat.

VANJULA G. RAJAN, Under Secretary

New Delhi, the 2nd September, 2005

No.RS/6(iv)/2005/47-Perl. — Consequent to the re-constitution of the Department-related Parliamentary Standing Committee and the Standing Committees (House Committees) of the Rajya Sabha w.e.f. 5th and 6th August, 2005 respectively, the appointments of the following Senior Private Secretaries on co-terminus basis in the personal staff of Chairman of the Parliamentary Committees shown against their names are being renewed w.e.f. the dates of re-constitution of the respective Committees, as follows:—

Sl. No.	Name & Date of initial appointment	Chairman in whose personal staff appointed	Date of renewal of appointment
1.	Shri Rajesh Kumar Chopra (23/08/2004)	Chairman, Committee on Science & Technology, Environment and Forests	05/08/2005
2.	Shri Prasenjit Bose (13/09/2004)	Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture	05/08/2005
3.	Shri Pradeep Kumar Jain (09/08/2004)	Chairman, Committee on Commerce	05/08/2005
4.	Shri Rajinder Sikka (12/08/2004)	Chairman, Committee on Home Affairs	05/08/2005
5.	Shri Suresh Chand Jain (05/08/2004)	Chairman, Committee on Human Resource Development	05/08/2005

Sl. No.	Name & Date of initial appointment	Chairman in whose personal staff appointed	Date of renewal of appointment
6.	Shri Shiv Kumar Singh (05/08/2004)	Chairman, Committee on Industry	05/08/2005
7.	Shri Nand Lal (12/08/2004)	Chairman, Committee on Health & Family Welfare	05/08/2005
8.	Shri Madhavan (05/08/2004)	Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice	05/08/2005
9.	Shri Manoj Kumar Singh (07/08/2004)	Chairman, Committee on Petitions	06/08/2005
10.	Smt. Neena (01/03/2005)	Chairman, Committee on Government Assurances	06/08/2005
11.	Shri Dadi Rama Krishna (02/09/2004)	Chairman, Committee on Papers Laid on the Table	06/08/2005
12.	Shri Hemant Raval (07/08/2004)	Chairman, Hosue Committee	06/08/2005
13.	Shri Mohan Singh Sen (14/09/2004)	Chairman, Committee on Ethics	06/08/2005

2. The above-said appointments are at the discretion of the present Chairman of the respective Committees and will be co-terminus with the term of their office.

VANJULA G. RAJAN, Under Secretary

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 31st August, 2005

No.GN-5522/2005/AN-II.—In supersession of earlier Notification No. PF. 1819(3)/GN-5148/AN-I/2004 dated 16.4.2004, the Speaker is pleased to appoint Shri U.S. Saxena, Director Lok Sabha Secretariat as Estate Officer with effect from 29.08.2005, until further orders, to exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (No. 40 of 1971) and as notified by the Ministry of Urban Development vide S.O.No. 3507 dated 8th November, 1988 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 26th November, 1988.

RAJEEV SHARMA, Deputy Secretary

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 26th August, 2005

No.A.19013/3/2005-Ad.....The President is pleased to appoint Shri Agrim Kaushal (IES:95) as Deputy Secretary in the National Security Council Secretariat in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 with effect from the forenoon of 22nd August, 2005 on deputation basis for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Y.P. SEHGAL, Under Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 30th August, 2005

No. A.38012/1/2005-Admn.I(L.D.): On attaining the age of superannuation Shri Z.S. Negi, Additional Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st August, 2005.

V. RAVINDRAN, Under Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th September 2005

No.I-45014/4/005-IPS-I.—Shri S. Nallasivam, an Indian Police Service Officer of 1995 batch, borne on the Cadre of Tamil Nadu, shall henceforth be known and recognized as R.S. Nallasivam for all purposes.

O.S.ASHOK, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th August, 2005

No.A.32013/1/2005-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri T.Venkatesh, IAS (U.P:88), as Director in Department of Personnel and Training with effect from the afternoon of 11th August, 2005 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

V.K. VELUKUTTY, Under Secretary

No.A.32013/8/2005-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri Ajay Prakash Sawhney, IAS (AP:84), as Joint Secretary in Department of Personnel & Training in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 with effect from the forenoon of 17th August, 2005 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

V.K. VELUKUTTY, Under Secretary

No. A. 32013/9/2005-Ad.I (G) The President is pleased to appoint Shri R.K. Singh, IRSE (Retd.), former Chairman, Railway Board, as Member, Public Enterprises Selection Board with effect from the afternoon of 22nd August, 2005, on tenure basis for a term of three years or until the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest, on contract basis.

V.K. VELUKUTTY, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 26th August, 2005

No. A- 12011/8/2005- Admn. II.—In pursuance of O.M.NO.12026/4/2005-CAS dated 05.08.2005 of Department of Expenditure, the President is pleased to appoint the following assistants of CSS of Finance Cadre, as Section officers in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the forenoon of the dates indicated against each, purely on ad-hoc basis, for a period of six months or till regular incumbent becomes available, whichever is earlier:—

Sl.No.	Name of Officials	Date of Appointment
1.	Shri. Inder Mohan Singh	08.08.2005
2.	Shri. S.K. Nayyar	08.08.2005
3.	Smt.Sunita Sharma	08.08.2005
4.	Smt. Manjit Kaur	08.08.2005
5.	Smt. Kiran Gera	08.08.2005
6.	Shri Paresh Malakar	08.08.2005
7.	Smt. Parshotama Sankala	09.08.2005
8.	Shri Prit Pal Singh Oberoi	10.08.2005
9.	Smt. Santana Ralhan	16.08.2005

The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:

a. Ad-hoc appointments being a stop gap arrangement, shall not confer only them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

b. Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers.

V. RAMKUMAR, Under Secretary

New Delhi, the 30th August, 2005

No.F.12011/13/03-Ad.I A.— On his attaining the age of superannuation, Shri J.K. Arya, Accounts Officer, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, stands retired from Government service with effect from the afternoon 31st August, 2005 and his name will be struck off the rolls of the Department of Economic Affairs with effect from the same date.

NEELAM VOHRA, Under Secretary

New Delhi, the 31st August, 2005

No.A.11011/7/2003-Ad.I(A).— In continuation of this Department's Notification of even number dated 02.07.2004, the term of deputation of Shri S.C. Pandey IA & AS: (83) as Officers on Special Duty (FRBM) in the pay scale of Rs. 14,300-450-22,400 in Department of Economic Affairs is extended for a further period w.e.f. 02.07.2005 to 31.03.2006.

NEELAM VOHRA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Rubber Control)

New Delhi, the 30th August, 2005

No.6/14/2004—Plant (c).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section(3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Sajen Peter IAS (KL: 82) as Chairman of the Rubber Board, Kottayam with effect from the 5th August, 2005 (afternoon).

A. SENGUPTA, Additional Secretary

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 30th August, 2005

No.A-12018(1)/2004-Ec.Ad.(Admn.I).—The President is pleased to appoint Shri Radhey Shyam, a Senior Time Scale Officer of Indian Economic Services, as Deputy Economic Adviser(JAG) in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry in the Scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- on transfer on deputation bases for a period of one year with effect from forenoon of 23rd August, 2005 or until further orders, whichever event happens earlier.

SAMARENDRA SAHU, Additional Economic Adviser

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 11th August, 2005

No. A-12011/10/2001-Estt.—The President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' of CSSS borne on the

cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Private Secretary (A&B merged) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500/- for a period as mentioned against each:—

S.No	Name	From	To
1.	Shri Dharam Pal	01.07.2005	30.09.2005
2.	Shri Suresh Chander	-do-	-do-
3.	Shri S.K.Thakur	-do-	-do-
4.	Shri J.K. Tandon	-do-	31.07.2005

2. The above ad hoc appointments are with the approval of Department of Personnel & Training vide O.M.No.5/1/2005-CS.II dated 19.07.2005.

3. The above appointments are purely on adhoc basis and will not bestow on the above mentioned persons any claim for regular appointment etc.

TAJBIR SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 31st August, 2005

No.A-19011/2/2004-HR.II.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri S.N.P.N Sinha, IAS (BH:68) Secretary, Department of Fertilizers is retired from Government Service w.e.f. 31.08.2005 (A/N).

RAJESH AGRAWAL, Deputy Secretary

New Delhi, the 1st September, 2005

No.A-19011/10/2005-HR.II.—The President is pleased to appoint Shri Madhukar Gupta, IAS (UL:71) as Secretary in the Department of Fertilizers in the pay scale of Rs. 26,000/- (Fixed) w.e.f.1.9.2005 (F/N).

RAJESH AGRAWAL, Deputy Secretary

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 25th August, 2005

No.A-32013/1/98-Adm.(Vol.II.).—In Supersession of Notification dated the 5th August, 2005 the date of appointment of Smt Alice Kujur, consequent upon her promotion to Grade I (Under Secretary) of CSS vide Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005 -CS.I, dated the 7th July, 2005 may please be read as 28th July, 2005 (FN) instead of w.e.f. 27th July, 2005 (FN) until further orders.

PARKASH CHAND, Deputy Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 31st August, 2005

F.No. A-11011/03/04-Estt.—The president is pleased to appoint Shri Sandip Biswas, Dy. Manager (Secretarial) in the office of the Hindustan Cables Ltd., a Govt. of India Undertaking, Kolkata as Deputy Director (Law) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on deputation basis in the Forward Markets Commission, Mumbai, on the terms and conditions that may be finalized mutually by the lending and borrowing organizations, with effect from the forenoon of the 16th August, 2005 for a period of one year or till further orders, whichever event occurs earlier.

S.K. NAYAK, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 22nd August, 2005

F.No. A-32019/02/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. Subrata Banerjee Scientist 'F', as Scientist 'G' on his in-situ promotion under modified Flexible Complementing Scheme (FCS) in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Department of Scientific & Industrial Research with effect from 16.08.2005 (F/N) and until further orders.

GURMIT SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 29th July, 2005

No. Z.20018/1/2000-CPA.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Mital, Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests as Member, National Environment Appellate Authority (additional charge) with immediate effect till such time a Chairman is appointed in the Authority. Shri Sudhir Mital will carry out only routine functions of the Authority such as receiving appeals, if any, and their preliminary processing etc. Shri Mital will stand relieved of the additional charge of Member, NEAA when the Chairman joins duty.

K. V. MATHEW, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING &
FISHERIES)

New Delhi, the 31st August, 2005

No.3-1/2005-Fy. (Admn.).—The President is pleased to appoint Dr. P. Pakshirajan presently working as Senior Instructor (Craft and Gear) to the post of Chief Instructor

(Craft and Gear) (Group 'A' Gazetted) in Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 with effect from the forenoon of 4th July, 2005 until further orders. He will be on probation for a period of two years w.e.f. 4.7.2005.

R.K. MEHTA, Under Secretary

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st April, 2005

No. A-12022/2/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri D.P. Roy, an officer of Central Secretariat Service (CSS), presently working as Director in the Ministry of Rural Development as Joint Secretary in this Ministry in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/-, by upgrading the post of Director presently held by him to the level of Joint Secretary, as a measure personal to him with effect from the forenoon of 1-4-2005 till the date of his superannuation on 31-3-2007 or until further orders, whichever event takes place earlier.

H.C. BAVEJA, Under Secretary

New Delhi, the 27th July, 2005

No. A-32013/1/98-Estt. I (Vol.II).—The President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS as Under Secretaries purely on ad-hoc basis in the Ministry of Rural Development with effect from the dates mentioned against each until further orders:—

S.No.	Name of the Officer	Date of joining
	S/Shri	
1	Ms. S. Rukmani	12.7.2005(FN)
2	Davender Pal Singh	14.7.2005(FN)
3	A.D. James	14.7.2005(FN)

H.C. BAVEJA, Under Secretary

New Delhi, the 8th August, 2005

No. A-32013/1/98-Estt. I (Vol.II).—The president is pleased to appoint Sh. S.R. Mehar, regular Section Officer of CSS as Under Secretary purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 27th July, 2005.

H.C. BAVEJA, Under Secretary

No. A-32013/1/98-Estt. I (Vol.II) The President is pleased to appoint Sh. Ranjan Kumar, regular Section Officer of CSS as Under Secretary purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 29th July, 2005.

H.C. BAVEJA, Under Secretary

New Delhi, the 19th August, 2005

No. A-12022/3/2005-Estt.I—The President is pleased to appoint Smt. Nilam Sawhney, IAS (AP: 84) as Joint Secretary in the Ministry of Rural Development in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 19-8-2005 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

B.R. DHAMEJA, Under Secretary

New Delhi, the 24th August, 2005

No. A-32013/1/98-Estt. I (Vol.II).—The President is pleased to appoint Sh. K. Touthang, as Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 19th August, 2005 on transfer from the Department of Revenue, Ministry of Finance.

B.R. DHAMEJA, Under Secretary

New Delhi, the 25th August, 2005

No. A-12022/5/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Smt. Smite Chugh, IAS (JH: 80) as Joint Secretary in the Ministry of Rural Development in the scale of pay of Rs. 18,400 -500-22,400/- with effect from the forenoon of 24-8-2005 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

B.R. DHAMEJA, Under Secretary

New Delhi, the 26th August, 2005

No. A-32013/2/2000-Estt.I.—The President is pleased to appoint Smt. Anita Baghel, a JTS officer of Indian Statistical Service (ISS) as Assistant Director in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in the Ministry of Rural Development with effect from 23.8.2005 (FN) on transfer from the Department of Health & Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare).

B.R. DHAMEJA, Under Secretary

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 29th August, 2005

No. 1-11/2004 MII—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Sudhakar Sharma, keeper, National Gallery of Modern Art, Ministry of Culture, New Delhi with effect from 22nd August, 2005 (forenoon) for his appointment as Secretary, Lalit Kala Akademi, New Delhi, a Central Autonomous Organisation in the Ministry of Culture on the terms and conditions laid down in the Department of Personnel and Training O.M. No. 28016/5/85-Estt (C) dated the 31st January 1986 as amended from time to time.

S.K. KAPUR, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, the 27th July, 2005

No. 41-8/2001-Admn-I/IV—On attaining the age of superannuation, Shri Nafe Singh Engineer, Wireless Monitoring Organisations, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & I.T., retired from government service with effect from the afternoon of 30th June, 2005.

P.K. RAGHURAM, Under Secretary (Admn. IV)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi, the 22nd August, 2005

Subject: Promotion of IPOs/IRMs/General Line officials to Postal Service Group 'B' on the basis of result of Departmental Competitive Examination 2001-2002 held on 23rd & 24th September, 2003.

No. 9-83/2002 SPG. On the basis of results of above examination, the Director General (Posts) is pleased to approve the promotion of Shri B. Gopala Rao in the grade of Postal Service Group 'B' (Scale of pay Rs. 7500-250-12000/-) on regular basis w.e.f. the date of assumption of charge and until further orders with placement of his name below Shri Bibhash Chandra Singh (at Sl. No. 41 in this Directorate notification of even number dated 28.10.2004) and above Shri Bhawani Prasad at (Sl. No. 42 in the said notification). On promotion he is allotted to A.P. Circle.

2. VIGILANCE/DISCIPLINARY CASE, IF ANY

In case any vig./disc. Case, of the type referred to in O.M. No. 22011/2/86-Estt. (A) dated 12.01.88 from DOP&T circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated 04.05.88 (subsequently) revised vide DOP&T memo No. 22022/4/91-Estt/(A) dt. 14.09.92 circulated vide this office memo No.25-19-88-SPG dated 13.10.92 is pending against the officials,

he should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The official against whom any punishment is current they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

3. PROMOTION SUBJECT OF ELIGIBILITY

In case if is later on found that the official was not eligible to take the examination under the rules or instructions on the subject or for any other reasons his promotion will be cancelled. In respect of official, if any, whose admission to the examination was provisional, the promotion will be subject to the final decision regarding his eligibility for taking the examination.

4. PROBATION PERIOD

The official who have been promoted to the Postal Service Group 'B' will be on probation for two years and his suitability to hold this post will be adjudged on completion of two years of probation. if any official proceeds on leave for a period Exceeding 30 days during this period, the probation period will be extended depending upon the period of leave.

5. TRAINING

The official will be directly promoted to Postal Service Group 'B' without any training for the present. However he will have to undergo the prescribed training as and when notified by Director, PSC, Ghaziabad.

6. OPTION FOR FIXATION OF PAY

If the officer wishes to give option for choosing date for fixation of pay under FR-22(I) (a) (1) should do so within one month from the date of promotion.

7. Relevant charge report may please be sent to this office in due course.

B.P. PANT, Assistant Director General (SGP)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st September, 2005

No.A. 12022/4/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Raghu Menon, IAS (NL: 1974) presently working as Joint Secretary in the Ministry of Civil Aviation as Additional Secretary in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 22400-525-24500 w.e.f. the forenoon of 1st September, 2005 for a period of three months by upgrading the post of Joint Secretary to that of Additional Secretary on a personal basis.

S. KESAVAIYER, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st August, 2005

No. FRB-I/2005/10/20-Shri R.K. Singh, Chairman, Railway Board and ex-officio Principal Secretary to the Government of

India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.07.2005, on attaining the age of superannuation.

M.K. AGARWAL, Secretary, Railway Board

New Delhi, the 31st August, 2005

No. 2002/(GR)I/8/1-The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Stores Service with effect from the date noted against each:—

S.No.	Name(S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	Sunil Kumar Tiwari	02.09.2002
2.	Manumanish Gupta	02.09.2002
3.	Prashant Agarwal	02.09.2002
4.	Rajesh Kumar Singh	02.09.2002
5.	Udai Kumar Keshri	02.09.2002
6.	Purusottam Sethi	05.09.2002
7.	Daroga Lal Yadava	09.09.2002
8.	Shreedeep Sinha	02.09.2002
9.	Ajay Kumar	01.09.2003

MAMTA KANDWAL, Dy. Director, Estt. (GR) Railway Board

New Delhi, the 1st September, 2005

NOTIFICATION

No. FRB-I/2004/23/29 Reference Ministry of Railways (Railway Board)'s Notification of even number dated 04.09.2004 regarding constitution of High Level Committee for a period of 3 months with effect from 05.09.2004 under the Chairmanship of Justice U.C. Banerjee, Judge (Retd), Supreme Court of India, to inquire into the incident of fire in Train No. 9166 Sabarmati Express at Godhra Station on 27.2.2002 and further Notifications of even number dated 30.11.2004, 04.03.2005 and 01.06.2005 extending the tenure of the High Level Committee upto 04.03.2005, 04.06.2005 and 04.09.2005 respectively.

2. The Government of India have decided to extend the tenure of the said High Level Committee for another 3 months beyond 04.09.2005, i.e., upto 04.12.2005.

By Order and in the name of the President of India.

M.K. AGARWAL, Secretary, Railway Board

ORDER

Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

K.M. NARAYANAN, Joint Secretary (Gaz.), Railway Board

New Delhi, the 6th November, 2005

No. E (O) III-2005/RN/14. Consequent upon his permanent absorption in IRCON, Shri Sudhir Mathur IRAS, has resigned from Railway service with effect from 31/08/2005 (AN).

M. K. AGARWAL, Secretary, Railway Board &
Ex-Officio Additional Secretary

New Delhi, the 7th November, 2005

No. E (O) III-2005/RN/19. Consequent upon his permanent absorption in RITES, Shri H.L. Chaudhary, SAG/IR/SE, has resigned from Railway service with effect from 23.08.2005 (AN).

M. K. AGARWAL, Secretary, Railway Board

No. E (O) III-2005/RN/20. Consequent upon his permanent absorption in IRCON, Shri Raj Bahadur, AEN (Group 'B') has resigned from Railway service with effect from 18.08.2005 (AN).

M. K. AGARWAL, Secretary, Railway Board

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS**

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 26th August, 2005

No. A-12025/5/2003-Estt. The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri. D.J. Basu, Deputy Director (Mechanical) (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 beyond 18.7.2005 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier. The other conditions would remain same as indicated in this Ministry's Office Order No. 6/2004 dated 19.01.2004. (A-12025/5/2003-Estt.)

S. K. SHAHI, Under Secretary

**(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS)**

New Delhi, the 30th August, 2005

No. A-12025/59/2005-EII(B). The President is pleased to appoint Shri H.C. Gupta, IAS (UP: 71) as Member (Admn.) in National Highways Authority of India with effect from 01/08/2005 (AN)

B.N. MISHRA, Under Secretary

New Delhi, the 1st September, 2005

No. A-32013/6/2004-E.II The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri. V. Velayutham, Chief Engineer, as Additional Director General in the Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways for a further period of six months beyond 26.07.2005 or until further orders, whichever is earlier subject to the orders of the Hon'ble High Court in this behalf.

B. N. MISHRA, Under Secretary

**MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
(FILMS DIVISION)**

Mumbai, the 25th August, 2005

No. A-32014/1/2005-Est.I On the recommendations of the Department Promotion Committee the Competent Authority has promoted Shri V.K. Shyam Sunder, Recordist, Films Division, New Delhi to the post of Chief Recordist, (Group "B" Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500, in Films Division, Mumbai, with effect from the forenoon of 22.8.2005 until further orders.

T. T. FERNANDES, Assistant Administrative Officer
For Chief Producer

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, 2nd September, 2005

No. K-11011/21/2005-DDIA. In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Rai, IAS (UP:74) as Vice-Chairman of the Delhi Development Authority in the rank and pay of Additional Secretary, with effect from the date on which he assumes charge of the post and until further orders.

PARMJIT SINGH, Desk Officer

**MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & POVERTY
ALLEVIATION**

New Delhi, the 17th August, 2005

No. N-14024/6/2005-H. I Shri Zile Singh Dishodia, IES has been posted as Deputy Director in National Building Organisation of this Ministry w.e.f. 01.07.2005.

L. R. GUPTA, Under Secretary